


क़तर में कार्य-संबंधित चोट लगने के प्रमुख 5 कारण

#1 ऊँचाई से नीचे गिरना



- ऊँचाई पर काम करने वाले हर किसी को अनिवार्य प्रशिक्षण लेना चाहिए ।
- गार्डरेल उपयुक्त ऊँचाई पर (घुटने और कूल्हे) पर अवश्य बंधा हो और कर्मचारी सुरक्षा कवच अवश्य पहनें ।
- प्लेटफार्म व्यवस्थित हों और उन पर अत्यधिक वजन न हो और गतिविधि रोकने के लिए उनकी सुरक्षित सीढ़ी तक पहुंच हो ।

सुरक्षा के लिए बात करें: अपने सहकर्मियों और सुपरवाइजर को अपनी सुरक्षा चिंताएं बताएं।